

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर 2016—भाद्र 16, शक 1938

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन,

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (म. प्र.) 462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ-65-01-2016-तीन-542.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन, 2016 (पूर्वाद्ध) में दिनांक 25 अगस्त 2016 को पार्षद पद के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

स. क्र.	नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगरपालिका परिषद् सेंधवा, जिला बड़वानी.	पार्षद	14	चौदह	साजीद अख्तर खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2.	नगर परिषद्, ओरछा, जिला टीकमगढ़.	पार्षद	03	तीन	पारवती-खुमान लबकुश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3.	नगर परिषद्, बम्हनी बंजर, जिला मण्डला.	पार्षद	06	छः	श्री सुनील कुमार चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	नगर परिषद्, जावद, जिला नीमच.	पार्षद	09	नौ	श्री फजले नबी मो, नबी छीपा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5.	नगर परिषद्, जावद, जिला नीमच.	पार्षद	14	चौदह	रवि मुरलीधर सोनी	भारतीय जनता पार्टी
6.	नगर परिषद्, खनियाधाना, जिला शिवपुरी.	पार्षद	03	तीन	शांति आदिवासी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7.	नगर परिषद्, पेटलावद, जिला झाबुआ.	पार्षद	04	चार	श्री प्रदीप कुमार परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8.	नगर परिषद्, गोरमी, जिला भिण्ड.	पार्षद	06	छः	बसन्त सिंह पुत्र स्व. श्री रामेश्वर सिंह राजावत	भारतीय जनता पार्टी
9.	नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल.	पार्षद	12	बारह	जयप्रकाश पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.